



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 28—जून 3, 2011 (ज्येष्ठ 7, 1933)  
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28—JUNE 3, 2011 (JYAISTHA 7, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	507
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	495
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	5
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1025
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	1881
भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	3425
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	483
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण.....	*

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	507	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	495	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .....	5	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	1025	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	1881
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	3425
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	483
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

**भाग I — खण्ड 1****[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 मई 2011

सं. 4(1)-पीयू/2011--लोक सभा तथा राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य 30 अप्रैल, 2012 तक के कार्यकाल के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत चुने गए हैं:--

सदस्य, लोक सभा

1. श्री हंसराज गं. अहीर
  2. श्री विजय बहुगुणा
  3. श्री रमेश बैस
  4. श्री अम्बिका बनर्जी
  5. श्री वी. किशोर चन्द्र देव
  6. श्री शैलेन्द्र कुमार
  7. श्रीमती इन्द्रिड मैक्लोड
  8. श्री विलास मुत्तेमवार
  9. श्री वैजयंत पांडा
  10. श्री अधलराव फटील शिवाजी
  11. श्री पोन्नम प्रभाकर
  12. श्री नामा नागेश्वर राव
  13. श्री उदय सिंह
  14. डॉ. प्रभा किशोर ताविआड
  15. श्री भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी
- सदस्य, राज्य सभा
16. श्री जनार्दन द्विवेदी
  17. श्री प्यारीमोहन महापात्र

18. श्री मुख्तार अब्बास नकवी

19. श्री भारतकुमार राऊत

20. सुश्री मैबल रिबैलो

21. श्री तपन कुमार सेन

22. श्री एन. के. सिंह

माननीय अध्यक्ष महोदया ने श्री वी. किशोर चन्द्र देव को समिति (2011-12) का सभापति नियुक्त किया है।

राजीव शर्मा  
निदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 3 मई 2011

सं. 4/1/2011/पीएसी--लोक सभा और राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों का लोक लेखा समिति की 01 मई, 2011 से आरंभ होकर 30 अप्रैल, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में चयन किया गया है :--

लोक सभा

1. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल
2. डॉ. बलीराम
3. श्री संदीप दीक्षित
4. श्री अनंत कुमार हेगड़े
5. डॉ. मुरली मनोहर जोशी
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री श्रीपाद येसो नाईक
8. श्री संजय निरूपम
9. श्री जगदम्बिका पाल

10. डॉ. के. सांबासिवा राव	3. श्री पी. जे. कूरियन (राज्य सभा)	सदस्य
11. श्री आधि शंकर	4. श्री प्रभाकर कोरे (राज्य सभा)	सदस्य
12. कुंवर रेवती रमन सिंह	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित (2 संसद सदस्य)	
13. श्री के. सुधाकरण	5. श्री दारा सिंह चौहान (लोक सभा)	सदस्य
14. डॉ. एम. तम्बिदुरई	6. श्री रमेश बैस (लोक सभा)	सदस्य
15. डॉ. गिरिजा व्यास	केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् द्वारा नामित (1 सदस्य)	
राज्य सभा	7. डॉ. महेश चन्द्र गुप्त	सदस्य
16. श्री तारिक अनवर	राष्ट्र भाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित (1 सदस्य)	
17. श्री प्रशांत चटर्जी	8. प्रो. अनन्त राम त्रिपाठी	सदस्य
18. श्री नरेश गुजराल	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नामित (4 सदस्य)	
19. श्री प्रकाश जावडेकर	9. डॉ. दुर्गादत्त ओझा	सदस्य
20. श्री सतीश चन्द्र मिश्र	10. श्री कृष्ण कुमार ग्रोवर	सदस्य
21. श्रीमती जयंती नटराजन	11. प्रो. मुकुल चंद पाण्डेय	सदस्य
22. प्रो. सैफुद्दीन सोज़	12. श्री विकास बाघ	सदस्य
2. अध्यक्ष ने डॉ. मुरली मनोहर जोशी को समिति का सभापति नियुक्त किया है।	राजभाषा विभाग द्वारा नामित (3 सदस्य)	

अभिजीत कुमार  
निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 29 अप्रैल 2011

संकल्प

सं. ई-11018/1/2009 रा.भा.--भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन, उनके कार्य आदि इस प्रकार होंगे :--

1. गठन

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री अध्यक्ष

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री उपाध्यक्ष

पर-सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित (4 संसद सदस्य)

1. श्री राजा राम पाल (लोक सभा) सदस्य
2. श्री जगदानन्द सिंह (लोक सभा) सदस्य

सरकारी सदस्य

16. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सदस्य
17. सचिव, राजभाषा विभाग सदस्य
18. सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सदस्य
19. सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग सदस्य
20. सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग तथा महानिदेशक, सीएसआईआर सदस्य
21. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग सदस्य
22. वित्तीय सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सदस्य
23. वित्तीय सलाहकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सदस्य
24. वित्तीय सलाहकार, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग एवं सीएसआईआर सदस्य
25. संयुक्त सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सदस्य

26. संयुक्त सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग सदस्य
27. संयुक्त सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग एवं सीएसआईआर सदस्य
28. भारत के महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून सदस्य
29. महानिदेशक, भारत मौसम विभाग, नई दिल्ली सदस्य
30. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस तथा थिमैटिक मानचित्रण संगठन, कोलकाता सदस्य
31. प्रबंध निदेशक, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली सदस्य
32. प्रबंध निदेशक, सैन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद सदस्य
33. निदेशक, इकमाम परियोजना निदेशालय, (इकमाम), चैन्नई सदस्य
34. निदेशक, समुद्री सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केन्द्र, (सीएमएलआई) कोच्चि सदस्य
35. निदेशक, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान, केन्द्र, नोएडा सदस्य
36. संयुक्त सचिव (प्रशा.) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग सदस्य-सचिव

## II. समिति के कार्य

समिति का कार्य संबंधित विभागों को संविधान में राजभाषा संबंधी विभिन्न प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम/नियम के उपबंधों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी निर्देशों के कार्यान्वयन में तथा सरकारी कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के मामले में सलाह देना होगा।

## III. कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित बातों के अधीन, तीन वर्ष का होगा :—

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।
- (ख) अवधि के बीच में रिक्त हुआ स्थान संबंधित सदस्य के स्थान पर उसके पद पर आने वाले व्यक्ति से भरा जाएगा और ऐसा व्यक्ति समिति की शेष अवधि के लिए सदस्य होगा।
- (ग) विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

## IV. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठक आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर कर सकती है।

## V. यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति के गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/4/86-रा.भा. (क.2) में निहित दिशानिर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, योजना आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाये। यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

इंदर जीत सिंह  
संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली-110115, दिनांक 2 मई 2011

सं. एफ-3-1/2010-यू-3--सरकार द्वारा दिनांक 06.04.2011 की अधिसूचना संख्या 3-1/2010-यू-3 के क्रम में जिसके तहत यह निर्णय लिया गया था कि प्रो. सब्यासाची भट्टाचार्य कार्यालय में अगले आदेशों के होने तक भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष बने रहेंगे और संगम ज्ञापन के नियम 13 के साथ पठित नियम 3 में निहित उपबंधों और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के नियमों के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्वारा प्रो. बासुदेव चट्टर्जी को भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली का अध्यक्ष नियुक्त करती है।

प्रो. चट्टर्जी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष का पदभार भट्टाचार्य से ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल, परिषद् के अध्यक्ष का कार्यालय ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि तक होगा।

सुनिल कुमार  
अपर सचिव

दिनांक 4 मई 2011

विषय :-- भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएस), शिमला की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने हेतु समिति का गठन-समय का विस्तार।

सं. एफ. 7-42/आईआईएस/2010-यू-5--जबकि, सरकार ने दिनांक 23.09.2010 की अधिसूचना संख्या एफ. 7-42/आईआईएस/2010-यू-5 के माध्यम से आईआईएस के संघ ज्ञापन के अनुच्छेद 5 के अनुसार भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएस) की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन किया था;

2. और जबकि, संस्थान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के कार्य को पूरा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है;

3. इसलिए अब दिनांक 23.09.2010 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अवधि को 31 मई, 2011 तक बढ़ा दिया गया है;

4. दिनांक 23.09.2010 की अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी अनुबंध वहीं रहेंगे।

5. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सुनिल कुमार  
अपर सचिव

दिनांक 6 मई 2011

विषय :-- भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन-समय का विस्तार।

सं. एफ. -7-42/आईसीएसएसआर/2010-यू-5--जबकि सरकार ने परिषद् की नियमावली के नियम 15 के अनुसार दिनांक 23.09.2010 की अधिसूचना संख्या एफ. 7-42/आईसीएसएसआर/2010-यू-5 के तहत भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन किया था।

2. और जबकि समीक्षा की अवधि को दिनांक 28.01.2011 की अधिसूचना संख्या एफ. 7-42/आईसीएसएसआर/2010-यू-5 के तहत बढ़ाया गया था।

3. और जबकि परिषद् की कार्यप्रणाली की समीक्षा के कार्य को पूरा करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है।

4. अतएव अब दिनांक 23.09.2010 तथा 28.01.2011 की अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, समिति द्वारा रिपोर्ट

को प्रस्तुत करने के समय को 30 जून, 2011 तक बढ़ा दिया गया है।

5. दिनांक 23.09.2010 तथा 28.01.2011 की अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य सभी अनुबंध वहीं रहेंगे।

6. इस आदेश को सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

सुनिल कुमार  
अपर सचिव

पर्यटन मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 9 मई 2011

संकल्प

सं. ई-11016/2009-हिन्दी--पर्यटन मंत्रालय के दिनांक 13.03.2008 के संकल्प संख्या 11016/6/2004 रा. भा. के अधिक्रमण में भारत सरकार एतद्वारा पर्यटन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है। इस समिति का गठन, कार्य और कार्यकाल आदि निम्नानुसार होगा :--

गठन

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 1. पर्यटन मंत्री                   | अध्यक्ष   |
| 2. पर्यटन राज्य मंत्री             | उपाध्यक्ष |
| I गैर सरकारी सदस्य                 |           |
| संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित |           |
| 3. श्री मणिकराव एच. गावित,         | सदस्य     |
| संसद सदस्य (लोक सभा),              |           |
| 38 जी.आर.जी. रोड,                  |           |
| नई दिल्ली-110001                   |           |
| स्थायी पता-- सुमानिक निवास,        |           |
| पी.ओ. एंड तालुका-नवापुर,           |           |
| जिला-नंदुरबार-425412, महाराष्ट्र   |           |
| 4. श्री दुष्यन्त सिंह,,            | सदस्य     |
| संसद सदस्य (लोक सभा),              |           |
| एबी-17, तिलक मार्ग,,               |           |
| नई दिल्ली-110001                   |           |
| स्थायी पता-- राज निवास,            |           |
| धौलपुर, राजस्थान                   |           |
| 5. श्रीमती मोहसिना किदवाई,         | सदस्य     |
| संसद सदस्य (राज्य सभा),            |           |
| 80, लोधी एस्टेट,                   |           |
| नई दिल्ली-110003                   |           |
| स्थायी पता-- सिविल लाईन्स,         |           |
| जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश        |           |

6. श्री गोविन्दराव वामनराव आदिक, संसद सदस्य (राज्य सभा), 801, ब्रह्मपुत्र, डॉ. बी.डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001  स्थायी पता-- 1201, वेनगंगा, सर पोच्छकानवाला रोड,, वर्लीसागर को-ऑपरेटिव, हाउसिंग सोसाइटी, वर्ली, मुम्बई-400030  संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित	सदस्य	13. श्रीमती ए. एस. लखनपाल, 5/29, जानकी कुटीर, जुहू चर्च, मुंबई, महाराष्ट्र	सदस्य
7. प्रो. अलका बलराम क्षेत्रीय, संसद सदस्य (राज्य सभा), 124, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011  स्थायी पता-- 27/2 शिव सोसाइटी, बी.के. सिनेमा के पास, महेसाणा, गुजरात-384002	सदस्य	14. श्री सिराज अहमद खान, पुत्र श्री मुस्ताक अहमद खान, मुस्ताक अहमद टिम्बर मार्ट के पीछे, जरी-मरी, कुर्ला, अंधेरी रोड, साकिनाका, मुंबई-400072  15. श्री राम मोहन, ए-17, नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी, जुहू, मुंबई-400049 (महाराष्ट्र)  केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, एक्स वाई--68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली के प्रतिनिधि	सदस्य
8. श्री किसनभाई वी. पटेल, संसद सदस्य (लोक सभा), 144-146, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011  स्थायी पता-- ए.टी. एंड पी.ओ. कांगवी तहसील-धर्मपुर, जिला-वलसाड, गुजरात  पर्यटन मंत्रालय द्वारा नामित	सदस्य	16. श्री श्रीपाल, कार्यपालक अभियंता 5/630, लोदी कॉलोनी, नई दिल्ली-110003  कार्यालय का पता : कार्यपालक अभियंता पी. मंडल, के.लो.नि.वि. सादिक नगर, नई दिल्ली-110001  राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पो. हिन्दी नगर, वर्धा-442003 (महाराष्ट्र) के प्रतिनिधि	सदस्य
9. श्री अशोक कुमार चौधरी, 5, फ्रेन्ड्स इन्क्लेव, अनिल सूर पथ, उलियान, कदमा जमशेदपुर-831005	सदस्य	17. डॉ. रामप्रसाद त्रिवेदी, 3, अशोक कुंज, दूसरा माला शिवमंदिर रोड, भोइरवाडी, चिकणघर, कल्याण (पश्चिम) जिला-ठाणे, (महाराष्ट्र)-421304	
10. श्री अनादि ब्रह्म, 4 ए, अक्षय भवन, राधागोविन्द पथ, थडपखना, रांची-834001, झारखण्ड	सदस्य	II सरकारी सदस्य  राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय	
11. श्री रजनीश शर्मा, बी.एल.-387, सैक्टर-2 साल्ट लेक, कोलकाता-700091, पश्चिम बंगाल	सदस्य	18. सचिव	सदस्य
12. श्री राहुल रमेश शेलार, प्रथम तल, पित्रुछाया सदन बाजार पेठ के पास वांगनी (पश्चिम), तालुका-अंबरनाथ जिला-ठाणे, मुंबई-421503, (महाराष्ट्र)	सदस्य	19. संयुक्त सचिव  पर्यटन मंत्रालय	सदस्य
		20. सचिव	सदस्य
		21. अपर सचिव (पर्यटन)	सदस्य
		22. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (पर्यटन)	सदस्य
		23. संयुक्त सचिव (पर्यटन)	सदस्य
		24. अपर महानिदेशक (पर्यटन)	सदस्य

25. अपर महानिदेशक (एम आर)	सदस्य	के सदस्य नहीं रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
26. आर्थिक सलाहकार (पर्यटन)	सदस्य	(ग) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक इस समिति के सदस्य रहेंगे और
27. क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर), भारत पर्यटन कार्यालय, नई दिल्ली	सदस्य	(घ) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा किसी सदस्य द्वारा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र देने के कारण कोई स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य इस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।
28. क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिम), भारत पर्यटन कार्यालय, मुंबई	सदस्य	
29. क्षेत्रीय निदेशक (पूर्व), भारत पर्यटन कार्यालय, कोलकाता	सदस्य	
30. क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिण), भारत पर्यटन कार्यालय, चेन्नई	सदस्य	4. समिति का मुख्यालय
31. क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर-पूर्व), भारत पर्यटन कार्यालय, गुवाहाटी	सदस्य	समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति की बैठक दिल्ली से बाहर भी आयोजित की जा सकती है।
32. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली	सदस्य	5. यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते
33. निदेशक, राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं कंटेरिंग टेक्नोलॉजी परिषद्, नोएडा, उत्तर प्रदेश	सदस्य	5. (क) समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए समिति में नामित सांसदों को "संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954" के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।
34. निदेशक, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	सदस्य	(ख) समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/22034/04/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।
35. अपर महानिदेशक एवं राजभाषा प्रभारी	सदस्य-सचिव	

## 2. कार्य

समिति का मुख्य कार्य राजभाषा के संबंध में संविधान, राजभाषा अधिनियम व नियम में निर्धारित सिद्धांतों तथा केन्द्रीय हिन्दी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के प्रयोग के संबंध में निर्धारित नीतियों और निदेशों के कार्यान्वयन में सलाह देना है।

## 3. कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से इसके गठन की तारीख से निम्नलिखित के अधीन तीन वर्ष का होगा :--

- (क) जो संसद सदस्य इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद के सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- (ख) जो संसद सदस्य संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य होने की हैसियत इस समिति के सदस्य हैं, वे संसदीय राजभाषा समिति

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति पर्यटन मंत्रालय, हिन्दी सलाहकार समिति के सभी सदस्यों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अजय कुमार गुप्ता

अपर महानिदेशक एवं राजभाषा प्रभारी



## LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 2nd May 2011

No. 4(1)-PU/2011—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been duly elected to serve as members of the Committee on Public Undertakings for the term ending on 30th April, 2012 :—

## Members, Lok Sabha

1. Sh. Hansraj G. Ahir
2. Sh. Vijay Bahuguna
3. Sh. Ramesh Bais
4. Sh. Ambica Banerjee
5. Sh. V. Kishore Chandra Deo
6. Sh. Shailendra Kumar
7. Smt. Ingrid Mcleod
8. Sh. Vilas Baburao Muttemwar
9. Sh. Baijayant Panda 'Jay'
10. Sh. Adhalrao Shivajirao Patil
11. Sh. Ponnamp Prabhakar
12. Sh. Nama Nageswara Rao
13. Sh. Uday Singh
14. Dr. Prabha Kishor Taviad
15. Sh. Bhisma Shankar alias Kushal Tiwari

## Members, Rajya Sabha

16. Sh. Janardan Dwivedi
17. Sh. Pyarimohan Mohapatra
18. Sh. Mukhtar Abbas Naqvi
19. Dr. Bharatkumar Raut
20. Ms. Mabel Rebello
21. Sh. Tapan Kumar Sen
22. Sh. N. K. Singh

The Hon'ble Speaker has been pleased to appoint Shri V. Kishore Chandra Deo as Chairman of the Committee (2011-2012).

RAJEEV SHARMA  
Dir.

New Delhi-110001, the 3rd May 2011

No. 4/1/2011/PAC—The following Members of Lok Sabha and Rajya Sabha have been elected to serve as members of the committee on Public Accounts for the term beginning on 1st May, 2011 and ending on 30th April, 2012 :—

## Lok Sabha

1. Sh. Anandrao Vithoba Adsul
2. Dr. Baliram

3. Sh. Sandeep Dikshit
4. Sh. Anant Kumar Hedge
5. Dr. Murli Manohar Joshi
6. Sh. Bhartruhari Mahtab
7. Sh. Shripad Yesso Naik
8. Sh. Sanjay Nirupam
9. Sh. Jagdambika Pal
10. Dr. Kavuru Sambasiva Rao
11. Sh. Adhi Sankar
12. Kunwar Revati Raman Singh
13. Sh. K. Sudhakaran
14. Dr. M. Thambidurai
15. Dr. Girija Vyas

## Rajya Sabha

16. Sh. Tariq Anwar
17. Sh. Prasanta Chatterjee
18. Shri Naresh Gujral
19. Sh. Prakash Javadekar
20. Sh. Satish Chandra Misra
21. Smt. Jayanthi Natarajan
22. Prof. Saif-ud-Din Soz

2. The Speaker is pleased to appoint Dr. Murli Manohar Joshi as the Chairman of the Committee.

ABHIJIT KUMAR  
Dir.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 29th April 2011

## RESOLUTION

No. E-11018/1/2009-O.L.—The Government of India have decided to constitute the Joint Hindi Advisory Committee for the Ministry of Science and Technology and Ministry of Earth Science. The Composition of the Committee, its functions, will be as under :—

## I. Composition

Minister of Science and Technology and Minister of Earth Sciences	Chairman
State Minister of Science and Technology and State Minister of Earth Sciences	Vice-Chairman
Non Official Members	
Members of Parliament nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs ( 4 Members)	
1. Sh. Raja Ram Pal (Lok Sabha)	Member
2. Sh. Jagadanand Singh (Lok Sabha)	Member

3. Sh. P. J. Kurien (Rajya Sabha)	Member	30. Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation, Kolkata	Member
4. Sh. Prabhkar Kore (Rajya Sabha)	Member	31. Managing Director, National Research Development Corporation, New Delhi	Member
Members of Parliament nominated by Parliamentary Committee on Official Language (2 Members)		32. Managing Director, Central Electronics Ltd., Sahibabad	Member
5. Sh. Dara Singh (Lok Sabha)	Member	33. Director, Integrated Coastal and Marine Area Management, Chennai	Member
6. Sh. Ramesh Baish (Lok Sabha)	Member	34. Director, Center for Marine Living Resources and Ecology (CMLRE), Kochi	Member
Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad (1 Member)		35. Director, National Center for Medium Range Weather Forecasting, Noida	Member
7. Dr. Mahesh Chander Gupt	Member	36. Joint Secretary (Admn.), Deptt. of Science & Technology	Member-Secretary
Nominated by Rastra Bhasa Prachar Samiti, Wardha (1 Member)		II. Functions of the Committee	
8. Professor Anant Ram Tripathi	Member	The functions of the Committee will be to advise the Concerned Departments in matters relating to the provisions of official Language enshrined in the Constitution, decisions of Kendriya Hindi Samiti and the instructions issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs for the progressive use of Hindi in Official work.	
Nominated by the Ministry of Science & Technology (4 Members)		III. Tenure	
9. Dr. D. D. Ozha	Member	The tenure of members of the committee will ordinarily be three years from the date of it's Composition, provided that :—	
10. Sh. Krishan Kumar Grover	Member	(a) A Member of Parliament nominated to the Committee shall cease to be a Member of the Committee as soon as he ceases to be a Member of Parliament,	
11. Prof. Mukul Chand Pandey	Member	(b) Any mid-term vacancy shall be filled up by the concerned member's successor in office, who shall be a member of the Committee for the remaining term of three years.	
12. Sh. Vikas Wagh	Member	(c) In special circumstances the tenure of the Committee may be prolonged/Cut short by the Ministry of Science and Technology and Ministry of Earth Sciences.	
Nominated by the Department of Official Language (3 Members)		IV. General	
13. Sh. Sarfaraz Arzu	Member	The Headquarters of the Committee shall be at New Delhi but it may hold it's meetings at any other place also, if so required.	
14. Sh. Raghvendra	Member	V. Travelling and other allowances	
15. Sh. Sateesan	Member	The non-official members of the Committee will be paid Travelling and Daily Allowances for attending the meeting of the Committee as per the guidelines Contained in O.M. No. 11/20034/4/86-O.L. (A-2) dated 22nd January, 1987 of Department of Official Language and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.	
Official Members		ORDER	
16. Secretary, Department of Science & Technology	Member	Ordered that a copy of the Resolution be Communicated to All the Members of the Committee, All State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office,	
17. Secretary, Deptt. of Official Language	Member		
18. Secretary, Ministry of Earth Science	Member		
19. Secretary, Deptt. of Biotechnology	Member		
20. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research and DG CSIR	Member		
21. Joint Secretary, Deptt. of Official Language	Member		
22. Financial Advisor, Deptt. of Science & Technology	Member		
23. Financial Advisor, Ministry of Earth Science	Member		
24. Financial Advisor, Deptt. of Scientific & Industrial Research & CSIR	Member		
25. Joint Secretary, Ministry of Earth Science	Member		
26. Joint Secretary, Deptt. of Biotechnology	Member		
27. Joint Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research & CSIR	Member		
28. Surveyor General of India, Survey of India, Dehradun	Member		
29. Director General, India Meteorology Deptt. New Delhi	Member		

Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Planning Commission, All Ministries and Departments of the Government of India. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

INDERJEET SINGH  
Joint Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT.  
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi-110115, the 2nd May 2011

No. F-3-1/2010-U-3—Further to the Notification No. 3-1/2010-U-3 dated 06.04.2010 by the Government vide which it was decided that Prof. Sabyasachi Bhattacharya would continue in office as Chairman, ICHR till further orders and in accordance with the provisions contained in Rule 3, read with Rule 13 of the MoA and Rules of the Indian Council of Historical Research (ICHR), New Delhi, the Government of India hereby appoints Prof. Basudev Chatterjee as Chairman of Indian Council of Historical Research (ICHR), New Delhi.

Prof. Chatterjee will take over the Office of Chairman ICHR from Prof. Bhattacharya, and his tenure shall be for a period of three years from the date he assumes office of the Chairman of the Council.

SUNIL KUMAR  
Additional Secy.

The 4th May 2011

Subject :— Constitution of a Committee to Review the functioning of Indian Institute of Advanced Study (IIAS), Shimla—Extension of time.

No. F-7-42/IIAS/2010-U-5—Whereas, the Government constituted a Committee to review the functioning of Indian Institute of Advanced Study (IIAS), Shimla as per Article 5 of the Memorandum of Association of IIAS, vide Notification No. F-7-42/IIAS/2010-U-5 dated 23.09.2010;

2. And whereas, the work of reviewing the functioning of the Institute requires some more time for completion;

3. Now, therefore, in partial modification of the Notification dated 23.09.2010, the time for submission of the report by the Committee has been extended till 31st May, 2011.

4. All other stipulations mentioned in the Notification dated 23.09.2010 will remain.

5. This order issues with the approval of the Competent Authority.

SUNIL KUMAR  
Additional Secy.

The 6th May 2011

Subject :— Constitution of a Committee to Review the functioning of Indian Council of Social Science Research—Extension of time.

No. F-7-42/ICSSR/2010-U-5—Whereas, the Government constituted a Committee to review the functioning of Indian Council of Social Science Research (ICSSR) as per Rule 15 of the Rules of the Council, vide Notification No. F-7-42/ICSSR/2010-U-5 dated 23.09.2010;

2. And whereas, the tenure for the review was extended vide Notification No. F-7-42/ICSSR/2010-U-5 dated 28.01.2011;

3. And further whereas, the work of reviewing the functioning of the Council requires some more time for completion;

4. Now, therefore, in partial modification of the Notifications dated 23.09.2010 and 28.01.2011, the time for submission of the report by the Committee has been extended till 30th June, 2011.

5. All other stipulations mentioned in the Notifications dated 23.09.2010 and 28.01.2011 will remain.

6. This Order issues with the approval of the Competent Authority.

SUNIL KUMAR  
Additional Secy.

MINISTRY OF TOURISM

New Delhi-110011, the 9th May 2011

RESOLUTION

No. E-11016/1/2009-Hindi—In supersession of Resolution No. 11016/6/2004 O.L. Dated 13.03.2008 of this Ministry, Government of India hereby reconstitutes the Hindi Salhakar Samiti of the Ministry of Tourism. The constitution, functions and tenure of the Samiti will be as under :—

COMPOSITION

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Ministry of Tourism   | Chairman      |
| 2. Minister of State for Tourism   | Vice-Chairman |
| I. Non Official Members  |               |
| Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs   |               |
| 3. Shri Manikrao H. Gavit,<br>Member of Parliament (Lok Sabha),<br>38, G.R.G Road,<br>New Delhi-110001<br>Permanent Address :—<br>Sumanik Niwas,<br>P.O. and Taluka-Navapur,<br>Distt.-Nandurbar-425412<br>Maharashtra | Member        |

4. Shri Dushyant Singh, Member  
Member of Parliament (Lok Sabha),  
AB-17, Tilak Marg,  
New Delhi-110001  
Permanent Address :—  
Raj Niwas,  
Dholpur, Rajasthan

5. Smt. Mohsina Kidwai, Member  
Member of Parliament (Rajya Sabha),  
80, Lodhi Estate,  
New Delhi-110003  
Permanent Address :—  
Civil Lines,  
Distt. Barabanki  
Uttar Pradesh

6. Shri Govind Rao Vaman Rao Adik, Member  
Member of Parliament (Rajya Sabha),  
801, Brahmaputra, Dr. B.D. Marg,  
New Delhi-110001  
Permanent Address :—  
1201 Vainganga,  
Sir Pochkhanwala Road,  
Worlisagar Co-op. Housing Society,  
Worli, Mumbai-400030

Nominated by the Committee of Parliament on Official  
Language

7. Prof. Alka Balram Kshatriya, Member  
Member of Parliament (Rajya Sabha),  
124 South Avenue,  
New Delhi-110011  
Permanent Address :—  
27/2 Shiv Society,  
Near B. K. Cinema,  
Mahesana, Gujarat-384002

8. Shri Kishanbhai V. Patel, Member  
Member of Parliament (Lok Sabha),  
144-146, South Avenue,  
New Delhi-110011  
Permanent Address :—  
A.T. and P.O. Kangvi,  
Teh-Dharampur,  
Distt.-Valsad, Gujarat

Nominated by Ministry of Tourism

9. Shri Ashok Kumar Chaudhary, Member  
5, Friends Enclave,  
Anil Sur Path,  
Uliyan, Kadma  
Jamshedpur-831005, Jharkhand

10. Shri Anadi Brahma, Member  
4A, Akshay Bhavan,  
Radha Govind Street,  
Tharpakhna, Ranchi-834001,  
Jharkhand

11. Shri Rajneesh Sharma, Member  
B.L. 387, Sector-2,  
Salt Lake, Kolkata-700091  
West Bengal

12. Shri Rahul Ramesh Shelar, Member  
1st Floor, Pitruachaya Sadan,  
Near Bazaar Peth,  
Vangani (West),  
Taluka-Ambarnath  
Distt.-Thane Mumbai (Maharashtra)

Nominated by Ministry of Home Affairs (Deptt. of  
Official Language)

13. Smt. A. S. Lakhan Pal, Member  
5/29, Janak Kutir,  
Juhu Church, Mumbai,  
Maharashtra

14. Shri Siraj Ahmed Khan, Member  
S/o Shri Mustaq Ahmed Khan,  
Near Mustaq Ahmed Timber Mart,  
Jari-Mari, Kurla, Andheri Road,  
Sakinaka, Mumbai-400072

15. Shri Ram Mohan, Member  
A/17, North Bombay Society,  
Juhu, Mumbai-400049 (Maharashtra)

Representative from Kendriya Sachivalya Hindi Parishad,  
XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi

16. Shri Shripal Singh, Member  
Executive Engineer,  
5/630 Lodhi Colony,  
New Delhi-110003  
Office Address :—  
P. Mandal, C.P.W.D.,  
Sadik Nagar, New Delhi-110001

Representative from Rashtra Bhasha Prachar Samiti, Hindi  
Nagar, Wardha-442003

17. Dr. Ram Prasad Trivedi, Member  
3, Ashok Kunj, 2nd Floor,  
Shiv Mandir Road, Bhoirvadi,  
Chikanghar, Kalyan (W),  
Distt.-Thane-421304 (Maharashtra)

## II. Official Members

Ministry of Home Affairs (Department of Official  
Language)

18. Secretary Member

19. Joint Secretary Member

Ministry of Tourism

20. Secretary Member

21. Additional Secretary (Tourism) Member

22. Additional Secretary and Financial  
Advisor (Tourism) Member

23. Joint Secretary (Tourism)	Member
24. Addl. Director General (Tourism)	Member
25. Addl. Director General (MR)	Member
26. Economic Advisor (Tourism)	Member
27. Regional Director (North), India Tourism Office, New Delhi	Member
28. Regional Director (West), India Tourism Office, Mumbai	Member
29. Regional Director (East), India Tourism Office, Kolkata	Member
30. Regional Director (South), India Tourism Office, Chennai	Member
31. Regional Director (North-East), India Tourism Office, Guwahati	Member
32. Chairman & Managing Director, Indian Tourism Development Corporation, New Delhi	Member
33. Director, National Council of Hotel Management & Catering Technology, Noida, Uttar Pradesh	Member
34. Director, Indian Institute of Tourism & Travel Management, Gwalior, Madhya Pradesh	Member
35. Addl. Director General and Incharge Official Language	Member-Secretary

## 2. Functions

The main function of the Samiti is to render advice for implementation of the principles relating to Official Language as given in the constitution, the Official Languages Act and Rules and the policy decisions and directions of the Kendriya Hindi Samiti and the Department of Official Language with regard to use of Hindi in Official work.

## 3. Tenure

Normally the tenure of the Samiti will be three years from the date of its constitution subject to the following :—

- The Members of the Parliament who are the members of the Samiti shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of the Parliament.
- The Members of the Parliament who are the members of the Samiti by virtue of their being members of the Committee of the Parliament on Official Language

shall cease to be the members of the samiti as soon as they cease to be Members of the Committee of the Parliament on Official Language.

- Ex-officio members of the Samiti shall continue to be the members of the Samiti as long as they hold the office by virtue of which they are the members of the Samiti; and

- If any vacancy arises in the Samiti owing to the death of a member or owing to tendering of resignation by a member, the member so appointed against that vacancy shall hold office for the residual term of the Samiti.

## 4. Headquarters of the Samiti

The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meeting at any other station, outside Delhi.

## 5. Travelling & Other Allowances

- The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid Traveling Allowance and Daily Allowance as per the provisions in the "Members of Parliament (Salary, Allowances & Pension) Act, 1954" amendments issued from time to time and rules made thereunder.

- Travelling Allowance and Daily Allowance to other non-official members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No. II/22034/04/86-O.L. (A-2) dated 22nd January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

## ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to All the Members of the Hindi Sahakar Samiti of Ministry of Tourism, President's Secretariat, Vice President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Planning Commission, Comptroller & Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues, Election Commission, Union Public Service Commission and All Ministries and Departments of the Government of India.

It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

AJAY KUMAR GUPTA  
Additional Director General  
and Incharge Official Language